

Highest-ever car sales in cracker of October

THE SHARE OF SUVs within Tata Motors hit an all-time monthly high of 77%. The demand for SUVs helped the company post a 27% rise in wholesales in October to 61,295 units. Its EVs also posted the highest-ever monthly sales, achieving a penetration of 15% within its portfolio. Tata Motors claimed that it delivered over 1 lakh vehicles between Navratri and Diwali, marking a robust 33% y-o-y growth.

Hyundai Motor India (HMIL), the country's fourth-largest carmaker, was the only brand to record a fall in volumes. They posted a 3% decline in sales to 53,792 units. The fall can be attributable to the phasing out of the existing Venue, which is to be replaced by a new version next week.

Tarun Garg, whole-time director and chief operating officer, HMIL, said, "We witnessed robust market

M&M seven-seater e-SUV named XEV 9S

MAHINDRA GROUP ON Saturday named its seven-seater electric SUV as XEV 9S. Built on Mahindra's advanced purpose-built INGLO platform, the latest electric SUV from the home-grown automobile major is set for world premiere at the 'Scream Electric' event in

Bengaluru on November 27. Mahindra's next all-electric SUV-XEV 9S is "designed to bring together power, presence, and pure electric performance, the XEV 9S marks a new chapter in Mahindra's all-electric evolution," it said in a statement.

—PTI

demand and high consumer enthusiasm, leading to second-highest monthly sales. We expect to accelerate this momentum with the upcoming launch of the all-new Venue, which is already open for bookings."

Toyota Kirloskar Motor (TKM) recorded the best growth among its peers in October. The maker of Fortuner and Innova posted a growth of 43% in vol-

umes to 40,257 units. Varinder Wadhwa, vice-president, sales-service-used car business, TKM, said, "The favourable eco-nomic environment during the festive season, reinforced by the GST reforms, boosted market confidence.

At TKM, this has resulted in a significant rise in customer enquiries and order intakes, collectively driving our overall performance."

Zepto aims for bigger Q-comm pie

FOR ORDERS BELOW ₹99, Zepto charges only ₹30 as delivery fee with handling charges completely waived, while Blinkit imposes ₹54 in total fees comprising ₹30 delivery, ₹4 handling, and ₹20 small cart charge. Instamart levies approximately ₹65 in fees, including ₹30 delivery, ₹9.80 handling, ₹15 small cart fee, along with 18% GST on such fees.

An analysis comparing identical purchases across Zepto, Zomato's Blinkit, and Swiggy's Instamart reveals stark pricing differences.

For a ₹84 item on Zepto, customers pay ₹115.50 including ₹30 delivery and ₹1.5 GST on fees, with han-

dling charges waived. In contrast, Blinkit charges ₹143 for the same item priced at ₹89—adding ₹30 delivery, ₹4 handling, and ₹20 small cart charges. Instamart is even more expensive at ₹154 for the ₹89 item, levying ₹30 delivery, ₹9.80 handling, ₹15 small cart fee, plus ₹9.86 as GST and charges.

For orders above ₹99, the contrast becomes more pronounced. Zepto waives all fees entirely, meaning customers pay only for products. Blinkit continues charging a minimum of ₹34 in fees—₹30 delivery plus ₹4 handling—until orders cross the ₹199 threshold where the delivery fee is

waived. Instamart charges ₹30 as delivery fee until the order value crosses ₹199, after which ₹16 is charged as delivery fee. However, this ₹16 delivery fee is waived for Swiggy One subscribers.

Industry observers suggest Zepto's fee elimination strategy aims to rapidly gain market share in an increasingly competitive market. However, questions remain about the sustainability of zero-fee models in quick commerce, where unit economics and path to profitability remain uncertain.

For now, consumers stand to benefit from the pricing war. Zepto did not immediately respond to a request for comments.

Non-trade issues key in US-India trade deal

THE US ALSO wants India to open up markets for American farm and industrial products and also commit to buy more energy and defence products. Beyond trade, the US is expected to ask for concessions for its technology companies, such as unrestricted cross-border data flow, and relaxed e-commerce and intellectual property (IP) rules, as per Global Trade Research Initiative (GTRI). The US sanctions on Russian oil companies Rosneft and Lukoil, which together account for 57% of Russia's crude output, has made imports of Russian crude untenable. The order warned that any company trading with them could face secondary sanctions.

The secondary sanctions extend far beyond trade restrictions. They can block access to the SWIFT payment system, freeze dollar transactions, and even cut digital services critical to refineries, ports, and banks.

Indian refiners and ports have already begun to reduce exposure: Reliance is scaling back Russian crude purchases, and Adani Ports has banned ships linked to sanctioned entities, affecting deliveries to IOC and HPCL-Mittal.

"A near-total halt by late November is now likely—driven by practical necessity rather than diplomatic choice," as per a report by GTRI founder Ajay Srivastava. Once purchases from sanctioned companies stop, India should demand that Washington remove the 25% Russian oil tariff, he said.

When talks resume, India should target parity with major partners such as the European Union, seeking average industrial tariffs of around 15% and duty-free access for select export sec-



tors, including textiles, gems and jewellery, and pharmaceuticals. India must also preserve its freedom to regulate the digital economy, he said.

Another change in India's stance required for getting a trade deal with the US that is being talked about is approval for imports of GM corn and soybean. India does not allow GM crops for food, but there is talk that India might use genetically modified corn for making ethanol to blend with petroleum fuels.

Soybean from the US can be used for preparing animal feed and not for human consumption. India is anyway increasingly moving to corn for increasing ethanol output.

"If imports of GM corn are permitted for ethanol production, India must enforce strict segregation: separate processing facilities, storage, and logistics to avoid mixing with non-GM varieties. Such steps are essential to protect farm incomes, seed diversity, and export credibility in non-GM markets," GTRI said.

India's approach to US engagement from here on must be sequenced, not rushed. GTRI has emphasised a three-step plan—secure energy first, restore fair tariffs next, and negotiate trade on balanced terms—as the most effective way to safeguard national interests amid volatile geopolitics.

"IN 2025, WE'VE already expanded into new markets such as Karnataka, Delhi and Haryana, with two more scheduled to open soon," added Kochhar.

Similarly, Maya Pistola launched its agave spirit—synonymous with tequila and mezcal in Mexico—in 2022, and has since grown from a niche liquor maker to an award-winning brand with over 40 accolades to its name. "Today, we're present across eight Indian states and four international markets," said Kimberly Pereira, chief operating officer, Maya Pistola.

Agave was introduced in India during the British, and the plant has since naturalised and now grows across the country in several varieties. Among them, Agave americana thrives in Chittoor district of the Deccan Plateau.

"This is the very agave species we use to craft Maya Pistola," added Pereira. The demand for such niche spirits also comes from a rise in cocktail culture, said Adarsh Gadvi, founder of Davana Vermouth Indica, makers of India's first 100% homegrown vermouth.

"Indian consumers are becoming more experimental—looking for craft, authenticity, and variety. Low-ABV, aperitif-style drinks are gaining interest, especially in urban markets. Vermouth fits naturally into this shift, as it works both in cocktails and as a standalone sip, appealing to both seasoned drinkers and new entrants exploring lighter, versatile options," he added.

Vermouth is an aromatised and fortified wine originating in Italy. First launched in Goa in late 2024, the brand has since expanded into Bengaluru and Mumbai, with Puducherry in the pipeline.

Homegrown brands are

as yet to be explored in brewing. With Geist Pop Fiction, we wanted to celebrate that diversity while also reconnecting with our own heritage," said Narayan Manepally, co-founder and CEO of Geist Brewing, an Indian craft beer brand.

"The way aralu is made adds even more character—local Karnataka rice, with its husk intact, is steeped in water and then heated over hot sand. As it pops, the husk is shed, and the grain takes on a ridged outer layer with streaks of charring. That process gives it a gentle crunch, a toasty depth, and a wonderfully aromatic quality—all of which carry through subtly into the beer's flavour and texture," added in



as in duty-free. Going forward, the company is also keeping an eye on emerging categories like agave spirits, vermouth, and liqueurs, where "we see long-term potential in India's cocktail-led markets", as per Ashar.

Meanwhile, Bonga Bonga was created to defy convention, as per Anupam Gurani, chief marketing officer of IndoBevs, a homegrown alco-bev company that makes the 'mystery liqueur'.

"From day one we set out to craft something the world hadn't seen—a liqueur that isn't just drunk, but experienced," he explained.

With a mix of 40 botanicals—from European staples like elderberry, basil, and thyme to Indian treasures like cinnamon, coriander, ginger, and honey—Bonga delivers a shot that comes alive at -10°C, cutting right through the senses. "Bonga's built-in infuser turns every pour into play, letting drinkers drop in herbs like rosemary, mint, or lavender to create their own twist. And when the liquid is gone, the story doesn't end—the bottle itself is designed to be kept, reused, and reimagined," explained Gurani.

R R KABEL LIMITED

(CIN: L28997MH1995PLC085294)

Regd. Off.: Ram Ratna House, Oasis Complex, Pandurang Budhkar Marg, Worli, Mumbai – 400 013.
T : +91-22-2494 9009 / 2492 4144. F: +91-22-2491 2586. Email ID : investorrelations.rrkl@rrglobal.com

STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND SIX MONTHS ENDED 30 SEPTEMBER 2025

(₹ in Lakhs except earning per share)

Sr. No.	Particulars	STANDALONE					CONSOLIDATED					
		Quarter Ended		Six Months Ended		Year Ended	Quarter Ended		Six Months Ended		Year Ended	
		30.09.2025	30.06.2025	30.09.2024	30.09.2025	30.09.2024	31.03.2025	30.09.2025	30.06.2025	30.09.2024	30.09.2025	31.03.2025
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
1.	Total Income from operations (net)	218064.23	207099.08	181735.48	425163.31	364398.67	766934.75	218064.23	207099.08	181735.48	425163.31	364398.67
2.	Net Profit (before tax, Exceptional and / or Extraordinary items)	15457.42	11903.36	5989.37	27360.78	14554.99	40736.11	15487.42	12004.36	5967.08	27491.78	14581.51
3.	Net Profit (before tax, after Exceptional and / or Extraordinary items)	15457.42	11903.36	5989.37	27360.78	14554.99	40736.11	15487.42	12004.36	5967.08	27491.78	14581.51
4.	Net Profit after tax (Share of Owners of the Company) (after Exceptional and / or Extraordinary items)	11595.56	8875.67	4975.28	20471.23	11364.34	30951.85	11625.56	8976.67	4952.99	20602.23	11390.86
5.	Total Comprehensive Income (Share of Owners of the Company)	10555.40	11863.71	11468.44	22419.11	20747.89	37618.53	10672.70	11953.37	11422.29	22626.07	20610.15
6.	Paid up Equity Share Capital (face value of ₹5/- per share)	5654.39	5654.31	5652.83	5654.39	5652.83	5653.65	5654.39	5654.31	5652.83	5654.39	5653.65
7.	Reserves excluding Revaluation Reserves as at Balance Sheet date						209141.51					209608.46
8.	Earnings per share (not annualised for the Quarters)											
	- Basic (in ₹)	10.25	7.85	4.41	18.10	10.07	27.40	10.28	7.94	4.39	18.22	10.09
	- Diluted (in ₹)	10.25	7.85	4.40	18.10	10.06	27.38	10.27	7.94	4.38	18.21	10.08
												27.58

Notes:

- i) The above Standalone and Consolidated financial results of R R Kabel Limited ("the Company") have been prepared in accordance with and comply in all material aspects with the Indian Accounting Standards (Ind AS) notified under Section 133 of the Companies Act, 2013 ("the act") read with relevant rules issued there under and in terms of Regulation 33 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (Listing Regulation), as amended. The full format of Standalone and Consolidated Financial Results are available on the stock exchange websites: www.bseindia.com, www.nseindia.com and also on the Company's website URL: https://www.rrkabel.com/reports/. The full details can also be accessed by scanning the QR code provided below.
- ii) The above standalone and consolidated financial results have been reviewed and recommended by Audit Committee at its meeting held on 31 October 2025. The Board of Directors at their meeting held on 31 October 2025 have approved the above results and taken them on record. The statutory auditors of the Company have expressed an unmodified review conclusion on the standalone and consolidated financial results for the quarter and six months ended 30 September 2025.
- iii) The Company has two reportable segment (presented for all periods) 1) Wires & Cables and 2) Fast-Moving Electrical Goods (FMEG) in accordance with Ind AS 108 – "Operating segments".
- iv) The Board of Directors at its meeting held on 31 October 2025 has declared a Interim Dividend of ₹ 4/- per equity share of face value ₹ 5/- each. The record date for the purpose of said dividend will be 7 November 2025.
- v) The above Consolidated Financial Results includes the Financial Results of the Joint venture, RR Imperial Electricals Limited, Bangladesh.



For and on behalf of the Board of Directors of
R R KABEL LIMITED
Sd/-
Mahendrakumar Rameshwari Kabra
Managing Director
DIN : 0473310

Liquor traditions reimagined

that are yet to be explored in brewing. With Geist Pop Fiction, we wanted to celebrate that diversity while also reconnecting with our own heritage," said Narayan Manepally, co-founder and CEO of Geist Brewing, an Indian craft beer brand.

Similarly, Maya Pistola launched its agave spirit—synonymous with tequila and mezcal in Mexico—in 2022, and has since grown from a niche liquor maker to an award-winning brand with over 40 accolades to its name. "Today, we

जे. कुमार
कंपनीला पुन्हा
पाच लाखांचा दंड
मुंबई : 'दहिसर - मिरा-भाईदर
मंटो' १' मागिके च्या कामादम्बान
गुरुवारी कंट्राटदार जे. कुमार
कंपनीक इन सुरक्षा नियमांचे
उल्लंघन करण्यात येत असल्याची
बाब निर्दशनास आली असून
यांसंबंधीची लेखी तकार्ही मुंबई
महानगर प्रदेश काप्रिकारण
प्राथिकरणाला (एमआरडी) आली
प्रात झाली होती. या प्रकाराची
गंभीर दखल घेत अखेर
एमआरडीने जे. कुमार
कंपनीला पाच लाख रुपये दंड
ठेठाऱ्यात. भाईदर पूर्व मेडतीया
नगर येथे वेळदौऱ्याकरत असल्यास
कंट्राटदारक इन सुरक्षेच्या दृष्टीने
कोणीली कोणीली घेण्यात आली
नसल्याचे निर्दशनास आल्याने
कंपनीला पाच लाखांचा दंड
ठेठाऱ्यात आला.

पत्राचाळीतील १४४८ घरांचा प्रस्ताव माज्यतेच्या प्रतीक्षेत

आराखडा, निविदा प्रक्रियेला विलंब

लोकसत्ता प्रतिनिधी

याची प्रतीक्षा मुंबई मंडळाला आहे.
मुंबई : गोरगाव पश्चिम थेंडल
सिद्धार्थ नगर अर्थात पत्राचाळा
पुनर्वाचनास अंतर्गत फ्लाडाच्या मुंबई
मंडळाला प्राप्त झालेल्या नकूपैकी
चार भूखंडावर २३४४ घरे
बांधण्याच्या कामाला लवकरच
सुरुवात होणार आहे. मात्र
त्याचेयी यावैकी आणखी दोन
भूखंडावर १४४८ घरे बांधण्याचा
प्रस्ताव मार्गील दहा महिन्यापासून
राज्य सरकारच्या माज्यतेच्या प्रतीक्षेत
आहे. या प्रस्तावाला केवळ माज्यता
मिळेल आणि आराखडा तयार
करून या घरांच्या बांधणीसाठी
निविदा प्रक्रिया केवळ राबवत येईल
आता केवळ

पत्राचाळ पुनर्वाचनास रेखडलेला
अमुन ६७२ मध्य राहिवाशाना घरांचा
तावा देण्याच्या प्रक्रिया सुरु आहे.
दुसरीकडे आता या
पुनर्वाचनास अंतर्गत मुंबई मंडळाला
भूखंडावर ११८१ घरे बांधणार
असून यातील ३९९ घरे अल्प
उत्पन्न गटातील आहेत, तर ७८२
घरे मध्यम उत्पन्न गटातील आहेत.
या घरांच्या बांधकामासाठी अंदाजे
७८२ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित
आहे. या बांधकामासंबंधीचा
प्रस्ताव प्राप्तासाठी माज्यतेसाठी
यासाठीचे कायदिशी देण्यात आले
आहे. या प्रकल्पाच्या कामाला प्रारंभ
करिण या घरांच्या बांधणीसाठी
करण्यासाठी आता केवळ

बनावट कॉल
सेंटरवरील कारवाईबाबत
'एफबीआय' ही उत्सुक
मुंबई : गज्यत पसरलेल्या बनावट
कॉल सेंटरच्या माध्यमातून
अमेरिकन नागरिकांची फसवणक
केल्याप्रकरणी झालेल्या कारवाईची
'फेडरल ब्युरो ऑफ
इन्हॉस्टेशन'ने (एफबीआय)
माहिती मारगवली आहे. याचाबत
केंद्रीय युहे अन्वेषण विभागाला
(सीरीआय) पाठविलेल्या मेलद्वारे
ही माहिती विविध तपासलास
सादर करण्याची दिनंती केली
आहे. याचावण एफबीआयचे एक
पथकही माहिती घेण्यासाठी
भारतात येणार असल्याचे कळते.
राज्यात बनावट कॉल सेंटरद्वारे
अमेरिका, कंडांग येथील
नागरिकांची कोलव्याधी रुपायांची
फसवणक झाल्याचे उघड झाले.
विविध मार्गांद्वारा या परदेशी
नागरिकांना आमीष प्राप्त झाली
उक्कल्याचा आरोप आहे.

गोळी झाडणाच्या पोलिसाच्या जबाबाची नोंद

पर्वऱ्ह ओलीस
नाट्य प्रकरण
लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : पर्वऱ्ह ओलीस नाट्य प्रकरणी युहे शाखेच्या तपासातून समारो आली आहे. याप्रकरणी युहे शाखेच्या जबाब नोंदविण्यास सुरुवात केली आहे. रोहितच्या मृतदेहावर पुरायात अंत्यसंस्कार करण्यात आले.

आदेश देण्यात आले नवते, असे ३० ऑक्टोबर रोजी रोहित आर्या यांची पर्वऱ्ह ओलीस नाट्य प्रकरणी युहे शाखेच्या पथकांने शनिवारी सहाय्यक पोलीस निरीक्षक अमेल वाघमरे यांचा जबाब नोंदविता. वाघमरे यांनी केलेल्या गोळीवारात रोहित आर्या याचा मृत्यु झाला होता. वाघमरे याला गोळी झाडण्याचे

३० ऑक्टोबर रोजी रोहित आर्या यांची पर्वऱ्ह ओलीस नाट्य प्रकरणी युहे शाखेच्या जबाब नोंदविण्यास सुरुवात केली होती. शालेल्या मृतदेहावर पुरायात अंत्यसंस्कार करण्यात आले.

यादेश देण्यात आले नवते, असे ३० ऑक्टोबर रोजी रोहित आर्या यांची पर्वऱ्ह ओलीस नाट्य प्रकरणी युहे शाखेच्या पथकांने शनिवारी सहाय्यक पोलीस निरीक्षक अमेल वाघमरे यांचा जबाब नोंदविता. वाघमरे यांनी केलेल्या गोळीवारात रोहित आर्या याचा मृत्यु झाला होता. वाघमरे याला गोळी झाडण्याचे

३० ऑक्टोबर रोजी रोहित आर्या यांची पर्वऱ्ह ओलीस नाट्य प्रकरणी युहे शाखेच्या जबाब नोंदविण्यास सुरुवात केली होती. शालेल्या मृतदेहावर पुरायात अंत्यसंस्कार करण्यात आले.

यादेश देण्यात आले नवते, असे ३० ऑक्टोबर रोजी रोहित आर्या यांची पर्वऱ्ह ओलीस नाट्य प्रकरणी युहे शाखेच्या पथकांने शनिवारी सहाय्यक पोलीस निरीक्षक अमेल वाघमरे यांचा जबाब नोंदविता. वाघमरे यांनी केलेल्या गोळीवारात रोहित आर्या याचा मृत्यु झाला होता. वाघमरे याला गोळी झाडण्याचे

३० ऑक्टोबर रोजी रोहित आर्या यांची पर्वऱ्ह ओलीस नाट्य प्रकरणी युहे शाखेच्या जबाब नोंदविण्यास सुरुवात केली होती. शालेल्या मृतदेहावर पुरायात अंत्यसंस्कार करण्यात आले.

यादेश देण्यात आले नवते, असे ३० ऑक्टोबर रोजी रोहित आर्या यांची पर्वऱ्ह ओलीस नाट्य प्रकरणी युहे शाखेच्या पथकांने शनिवारी सहाय्यक पोलीस निरीक्षक अमेल वाघमरे यांचा जबाब नोंदविता. वाघमरे यांनी केलेल्या गोळीवारात रोहित आर्या याचा मृत्यु झाला होता. वाघमरे याला गोळी झाडण्याचे

३० ऑक्टोबर रोजी रोहित आर्या यांची पर्वऱ्ह ओलीस नाट्य प्रकरणी युहे शाखेच्या जबाब नोंदविण्यास सुरुवात केली होती. शालेल्या मृतदेहावर पुरायात अंत्यसंस्कार करण्यात आले.

यादेश देण्यात आले नवते, असे ३० ऑक्टोबर रोजी रोहित आर्या यांची पर्वऱ्ह ओलीस नाट्य प्रकरणी युहे शाखेच्या पथकांने शनिवारी सहाय्यक पोलीस निरीक्षक अमेल वाघमरे यांचा जबाब नोंदविता. वाघमरे यांनी केलेल्या गोळीवारात रोहित आर्या याचा मृत्यु झाला होता. वाघमरे याला गोळी झाडण्याचे

३० ऑक्टोबर रोजी रोहित आर्या यांची पर्वऱ्ह ओलीस नाट्य प्रकरणी युहे शाखेच्या जबाब नोंदविण्यास सुरुवात केली होती. शालेल्या मृतदेहावर पुरायात अंत्यसंस्कार करण्यात आले.

यादेश देण्यात आले नवते, असे ३० ऑक्टोबर रोजी रोहित आर्या यांची पर्वऱ्ह ओलीस नाट्य प्रकरणी युहे शाखेच्या पथकांने शनिवारी सहाय्यक पोलीस निरीक्षक अमेल वाघमरे यांचा जबाब नोंदविता. वाघमरे यांनी केलेल्या गोळीवारात रोहित आर्या याचा मृत्यु झाला होता. वाघमरे याला गोळी झाडण्याचे

३० ऑक्टोबर रोजी रोहित आर्या यांची पर्वऱ्ह ओलीस नाट्य प्रकरणी युहे शाखेच्या जबाब नोंदविण्यास सुरुवात केली होती. शालेल्या मृतदेहावर पुरायात अंत्यसंस्कार करण्यात आले.

यादेश देण्यात आले नवते, असे ३० ऑक्टोबर रोजी रोहित आर्या यांची पर्वऱ्ह ओलीस नाट्य प्रकरणी युहे शाखेच्या पथकांने शनिवारी सहाय्यक पोलीस निरीक्षक अमेल वाघमरे यांचा जबाब नोंदविता. वाघमरे यांनी केलेल्या गोळीवारात रोहित आर्या याचा मृत्यु झाला होता. वाघमरे याला गोळी झाडण्याचे

३० ऑक्टोबर रोजी रोहित आर्या यांची पर्वऱ्ह ओलीस नाट्य प्रकरणी युहे शाखेच्या जबाब नोंदविण्यास सुरुवात केली होती. शालेल्या मृतदेहावर पुरायात अंत्यसंस्कार करण्यात आले.

यादेश देण्यात आले नवते, असे ३० ऑक्टोबर रोजी रोहित आर्या यांची पर्वऱ्ह ओलीस नाट्य प्रकरणी युहे शाखेच्या पथकांने शनिवारी सहाय्यक पोलीस निरीक्षक अमेल वाघमरे यांचा जबाब नोंदविता. वाघमरे यांनी केलेल्या गोळीवारात रोहित आर्या याचा मृत्यु झाला होता. वाघमरे याला गोळी झाडण्याचे

३० ऑक्टोबर रोजी रोहित आर्या यांची पर्वऱ्ह ओलीस नाट्य प्रकरणी युहे शाखेच्या जबाब नोंदविण्यास सुरुवात केली होती. शालेल्या मृतदेहावर पुरायात अंत्यसंस्कार करण्यात आले.

यादेश देण्यात आले नवते, असे ३० ऑक्टोबर रोजी रोहित आर्या यांची पर्वऱ्ह ओलीस नाट्य प्रकरणी युहे शाखेच्या पथकांने शनिवारी सहाय्यक पोलीस निरीक्षक अमेल वाघमरे यांचा जबाब नोंदविता. वाघमरे यांनी केलेल्या गोळीवारात रोहित आर्या याचा मृत्यु झाला होता. वाघमरे याला गोळी झाडण्याचे

३० ऑक्टोबर रोजी रोहित आर्या यांची पर्वऱ्ह ओलीस नाट्य प्रकरणी युहे शाखेच्या जबाब नोंदविण्यास सुरुवात केली होती. शालेल्या मृतदेहावर पुरायात अंत्यसंस्कार करण्यात आले.

यादेश देण्यात आले नवते, असे ३० ऑक्टोबर रोजी रोहित आर्या यांची पर्वऱ्ह ओलीस नाट्य प्रकरणी युहे शाखेच्या पथकांने शनिवारी सहाय्यक पोलीस निरीक्षक अमेल वाघमरे यांचा जबाब नोंदविता. वाघमरे यांनी केलेल्या गोळीवारात रोहित आर्या याचा मृत्यु झाला होता. वाघमरे याला गोळी झ